

Mehai Technology Limited

CIN: L74110RJ2013PLC066946

Date: 13.11.2023

To, BSE Limited Compliance Department Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Mumbai-400001 Maharashtra

Ref: Security Code:540730

Security Id: MEHAI

Dear Sir/ Madam,

<u>Sub: Newspaper Advertisement of unaudited Standalone and Consolidated financial results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023</u>

In continuation to our letter dated 11th November, 2023, please find attached scan copies of the newspaper advertisement in English in Financial Express (All India) - Jaipur edition and in Hindi in Business Remedies – Jaipur edition published on Sunday, 12th November, 2023 relating to extract of unaudited Standalone and Consolidated financial results for the Quarter and Half Year ended September 30, 2023.

Please take the above on record and kindly treat this as compliance with Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015.

Thanking You
Yours Faithfully,

For Mehai Technology Limited

JUGAL

COGAN FORM TO JUGA SEPTEM SEMICAT TO CHILD QUARTED SEMICAT TO CH

Jugal Kishore Bhagat Managing Director DIN:02218545

Encl: As above

FE SUNDAY

STATE BANK OF INDIA RACPC NARAINA, 59 COMMUNITY CENTRE PHASE - 1, NARAINA INDUSTRIAL AREA, NEW DELHI-110028

POSSESSION NOTICE (For Immovable Assets under Rule 8(1))

Notice is hereby given under the Securitisation and Reconstruction of Financial Assets & Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, The Bank issued demand notices on the date mentioned against account and amount stated hereinafter calling upon them to repay the amount within sixty days from the date of receipt of said notices. The borrower having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers, guarantors and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on the dates mentioned against account and amount below. The borrower and guarantor in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with the property. Any dealing with property will be subject to the charge of State Bank of India for the amount and interest thereon. Details of Property where Possession has been taken is as follow:-

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of Section 13 of the Act, in respect of time available, to redeem the secured assets. **DESCRIPTION OF THE IMMOVABLE PROPERTY**

Name of the Borrower/Guarantor | Description of the Mortgaged Property | Amt. O/s (as per Notice U/s.13(2)) | Date of 107) Notice | Date of

				Possession
BORROWER: MR. SANJAY KUMAR & MRS. VIJAY LAXMI C-3, 31 Keshav Puram, Onkar Nagar, Saraswati Vihar, Delhi-110035 Account No.: 40544233891 DATE: 09.11.2023 PLA	The Residential Flat No. AM-914 9 th Floor (Without Roof Right) in Block-A in Raj Empire Situated at Raj Nagar Extension Village Morti Tehsil and District Ghaziabad. The above mentioned Flat is constructed in multi storied building Super Area 1075 Sq.Ft.	Thirty Four Thousand Eight Hundred Eighty Nine Only) as on 02/09/2023 plus future interest thereon and	n nt	09.11.2023
	(99.86 Sq. Mtr. Approx.) and Carpet Area 54.45 Sq. Mtrs. Approx. Balcony Area 15.82 Sq. Mtr. Approx. in the name of Mr. Sanjay Kumar & Mrs. Vijay Laxmi.	with effect from	State Ban	k of India

ENCODE PACKAGING INDIA LIMITED (FORMALLY KNOWN AS NOVA PUBLICATIONS INDIA LIMITED)

Regd. Office- D-82, FOCAL POINT EXTENSION JALANDHAR CITY PUNJAB. Web: http://encodepackaging.com/, CIN: L67120PB1994PLC015406

Extract of Unudited Financial Results for the Quarter	ended 3	30 th Sep	tember	2023. (₹	in Lakhs)
	QUARTE	R ENDED	HALF YE	Year Ending	
Particulars	30.09.2023	30.06.2023	30.09.2023	30.09.2022	31.03.2023
Farticulars	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1 Total Income from Operations	117.17	78.34	195.51	84.37	249.34
2 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or) Extraordinary items#	11.39	-9.32	2.06	7.55	-6.06
3 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	11.39	-9.32	2.06	7.55	-6.06
4 Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items#)	11.39	-9.32	2.06	7.55	-6.06
5 Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax)	11.39	-9.32	2.06	7.55	-6.06
6 Equity Share Capital	315.21	315.21	315.21	315.21	315.21

- a) The above is an extract of the detailed format of unudited Financial Results for the guarter and half year ended on 30th September 2023, filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full formats of the unaudited Financial Results are available on the website of the Stock Exchange (www.bseindia.com) and the listed entity (encodepackaging.com)
- The above Financial results have been reviewed by the Audit Committee and adopted by the Board of directors at its meeting held on 10.11.2023.
- The operation of the Company relates to a single reportable segment. d) The above Financial Results have been prepared in accordance with the Indian accounting Standards (Ind-AS) as

Name of the Borrower(s)

(for continuing and discontinued operations) - 1. Basic: 2. Diluted.

notified under Companies (Indian Accounting Standards) Rule, 2015 as specified in section 133 of Companies Act, 2013. By order of the Board of Directors

For Encode Packaging India Limited Place:-Jalandhar Date:-10.11.2023 Navdeep Singh Bhatti, Whole-Time Director

SMFG

SI.

8 Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)

SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED (FORMERLY FULLERTON INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED)

Grihashakti Corporate Off.: 503 & 504, 5" Floor, G-Block, Insipre BKC, BKC Main Road, Bandra Kurla Complex, Bandra (E), Mumbai - 40005 Regd. Off.: Megh Towers, 3"Floor, Old No. 307, New No. 165, Poonamallee High Road Maduravoval, Chennal - 600095 POSSESSION NOTICE FOR IMMOVABLE PROPERTY [(Appendix IV) Rule 8(1)]

Description of Secured Assets | Demand Notice | Date of Symbolic

0.36

-0.30

0.07

0.24

WHEREAS the undersigned being the Authorized Officer of SMFG India Home Finance Company Limited (Formerly

Fullerton India Home Finance Company Limited) a Housing Finance Company (duly registered with National Housing Bank (Fully Owned by RBI)] (hereinafter referred to as "SMFGIHFCL") under Secuitisation and Reconstruction of Financia Assests and Enforcement of Security Interest Act, 2002 (54 of 2002), and in exercise of the powers conferred under Section 13(12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002 issued Demand Notice dated mentioned below under Section 13(2) of the said Act calling upon you being the borrowers (names mentioned below) to repay the amount mentioned in the said notice and interest thereon within 60 days from the date of receipt of the said notice. The borrowers mentioned herein below having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrowers mentioned herein below and to the public in general that the undersigned has Taken Symbolic Possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on me under sub-section (4) of Section 13 of the Act read with Rule 8 of the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002. The borrowers mentioned here in above in particular and the public in general are hereby cautioned not to deal with said property and any dealings with the property will be subject to the charge of "SMFGIHFCL" for an amount as mentioned herein under and interest thereon.

No.	/ Guarantor(s) LAN	(Immovable Property)	Date & Amount	Possession
1.	LAN 610439211150087&610439511211329 (1) MANJIT SINGH S/o. Sardar Gayan Singh (2) KAMAL DEEP SINGH (3) SHUSHMA RANI Add. 1 - 198A-173, Chhoti Bamanpuri, Nr. Sai Mandir, Bareilly, Uttar Pradesh- 243 003; Add. 2 - 105, Sudaha Garan, Near Rastogi Dhramshala, Bareilly, Uttar Pradesh- 243 001 Add. 3 - 495, 414, Bagiya Gali, Badi Bamanpuri, Bareilly, Uttar Pradesh-	12 Ft. Wide; West : House Rehan Shamsi; North : House Surekha Saxena; South : House	19.06.2023 Rs. 39,64,385/- (Rs. Thirty Nine Lakh Sixty Four Thousand Three Hundred Eighty Five Only) with interest as on 16.06.2023	09.11.2023 (Symbolic Possession)
2.	LAN 610338011095398 & 610338311145105 (1) Late JAYVEER SINGH S/o. Prem Singh Through Legal Hires (2) BHURI DEVI Add 1: 7, Shiv Dham Colony, Mathura Fouji Builling, Baldeo, UP-281 301.	Plot No. 07, Land Bearing Khasra No. 442, Kha, Measuring Area : 102.19 Sq. Meter, Situated At Shiv Dham Colony Mauza, Aurangabad Bangur The. & Dist, Mathura. Bound as:- East: Land of Khadar; West: Rasta 18 Feet; North: Plot No. 8; South: Plot No. 6.	Rs. 32,00,139/- (Rs. Thirty Two Lakh One Hundred Thirty	09.11.2023 (Symbolic Possession)

Place : Bareilly / Agra, Uttar Pradesh Date: 09.11.2023

Authorized Officer, SMFG INDIA HOME FINANCE COMPANY LIMITED (Formerly Fullerton India Home Finance Company Limited)

BOHRA INDUSTRIES LIMITED

Regd. Office: 301, Anand Plaza, University Road, Udaipur -313001, Rajasthan CIN: L24117811996PLC012912

Extract of Statement of unaudited Financial Results for the Quarter and half year ended 30.09.2023

S.	PARTICULARS			STAN	DALONE		
No.		(Quarter ended	1	Half Ye	early 1	ear ended
		30.09.2023 un-audited	30.06.2023 un-audited	30.09.2022 un-audited	30.09.2023 un-audited	30.09.2022 un-audited	31.03.2023 Audited
1	Total Income	25	*	3.	9.	1.5	*
2	Net Profit /(Loss) for the period after tax	(55.85)	(61.85)	(56.37)	(117.70)	(135.15)	(293.89)
3	Total Comprehensive Income for the Period		*		-	541	
4	Equity Share Capital (Paid-up) (FV of Rs. 10/- each)	142,971,520.00	142,971,520.00	102,971,520.00	142,971,520.00	102,971,520.00	142,971,520.00
5	Reserves excluding revaluation reserves (as shown in balance sheet of previous year)						
6	Earning Per Share - Basic/ Diluted (Rs.per equity share)	(0.39)	(0.43)	(0.55)	(0.82)	(1.31)	(2.06)
1	Total Income		125	139			
2	Net Profit /(Loss) for the period after tax	(55.85)	(61.85)	(56.37)	(117.70)	(135.15)	(293.89)
3	Total Comprehensive Income for the Period	5.07			_	-	

financialexp.er

- 1. The Company was acquired through CIRP Under the Insolvensy and Bankrupcy Code, 2016 vide resolution plan approved by National Company Law
- 2. The figures have been regrouped or re classified whenever necessary.
- 3. The company operates under one segment only and therefore reporting under AS-17 (segment reporting) is not applicable. 4. The above unaudited financial results for the quarter and half year ended on 30th September, 2023 have been

reviewed by the Audit Committee and aproved by the Board of Directors at their meeting held on 9th November, 2023.

For Bohra Industries Limited Krishna Argawal Place:Udaipur Director Date: 09.11.2023

DIN:09402238

MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

(CIN: L74110RJ2013PLC066946)

Reg. Office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area, Jaipur - 302006.

Corporate Office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake Kolkata 700091 WB IN Phone: 91-9836000343 E-mail: cs@mehai.co.in website: www.mehaitech.co.in Rs. (In Lakh)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

PARTICULARS	STANDALONE							CONSOLIDATED						
	Quarter ended September 30, 2023 Un-Audited	Quarter ended June 30, 2023 Un-Audited	Quarter ended September 30, 2022 Un-Audited	Half Year ended September 30, 2023 Un-Audited	Half Year ended September 30, 2022 Un-Audited	Year Ended On March 31, 2023 Audited	Quarter ended September 30, 2023 Un-Audited	Quarter ended June 30, 2023 Un-Audited	Quarter ended September 30, 2022 Un-Audited	Half Year ended September 30, 2023 Un-Audited	Half Year ended September 30, 2022 Un-Audited	for the year ended on March 31, 2023 Audited		
1 Total Income from Operations (Net)	389.86	213.45	66.27	603.31	150.35	816.88	389.86	226.42	85.65	616.28	169.73	889.07		
2 Profit/(Loss) before Exceptional Items & Extraordinary items and tax	28.32	22.41	4.17	50.73	9.49	86.28	28.32	22.93	5.07	51.25	10.38	88.58		
3 Net Profit/(Loss) for the period before tax (after Exceptional and /or Extraordinery Items	28.32	22.41	4.17	50.73	9.49	86.28	28.32	22.93	5.07	51.25	1038	88.58		
4 Net Profit/(Loss) for from Ordinary Activities after tax	23.10	14.44	3.12	37.54	7.10	49.74	23.10	14.83	3.79	37.93	7.75	51.44		
5 Total Comprehensive income for the period	23.10	14.44	3.12	37.54	7.10	49.74	23.10	14.83	3.79	37.93	7.75	51.44		
6 Paid-up Equity Share Capital (Rs. 10/- per share & Consolidated (Rs. 10.02 Per Share)	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1071.00	1071.00	1071.00	1071.00	1071.00	1071.00		
7 Earnings per Share (a) Basic	0.22	0.13	0.03	0.35	0.07	0.46	0.22	0.14	0.04	0.35	0.07	0.48		
(b) Diluted	0.22	0.13	0.03	0.13	0.07	0.46	0.22	0.14	0.04	0.13	0.07	0.48		

Financial Results is available on the Stock Exchanges Website (www.bseindia.com) and on Company's website (www.mehaitech.co.in).

2. The said Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 11.11.2023

For Mehai Technology Limited

Place: Kolkata -0.19

Date: 11.11.2023

DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMITED CIN- L60232MH2009PLC190567

> Registered Office Address: 24, 1st Floor, Palkhiwala House, Tara Manzil, 1st Dhobi Talao Lane, Marine Lines, Mumbai-400 002. Tel: 022-22002139 /40 / 49; Email: cs@djcorp.in; Website: www.djcorp.in

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER/HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023

Year Ended **Particulars Quarter Ended** Six Months Ended No. 31/03/2023 30/06/2023 30/09/2022 30/09/2022 30/09/2023 30/09/2023 (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) Total revenue from Operations 959.78 863.74 991.74 1,823.52 1,647.20 5,073.19 (Net) Net Profit/ (Loss) for the period 174.79 458.19 7.65 30.97 158.91 38.62 (Before exceptional items and tax) Net Profit/ (Loss) for the period 30.97 158.91 38.62 174.79 458.19 before tax(After exceptional items) Net Profit/ (Loss) for the period 28.03 25.50 112.26 53.52 128.14 333.64 after tax(After exceptional items) Total Comprehensive Income for the period (Comprising after tax (1.51)3.10 1.59 0.83 profit /(Loss) for the period & other comprehensive Income) Paid - Up equity share capital (108.28 108.28 108.28 108.28 108.28 108.28 Equity Share of Rs. 10/- each) Reserves excluding revaluation reserve as shown in the audited balance sheet of the previous yea Earning per equity share (Rs. 10/each) 1. Basic 0.26 0.24 1.04 0.48 1.18 3.08

Note: The above results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in their respective meeting held on November 11, 2023.

0.24

1.04

0.48

0.26

The financial results for the quarter and half year ended 30th September, 2023 have been subjected to limited review by the auditors of the Company.

The figures of the previous period have been regrouped whenever necessary. The above is an extract of the detailed Unaudited Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of

the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The detailed Unaudited Financial Results are available on the Stock Exchanges' websites i.e. www.bseindia.com & www.nseindia.com and also available on the Company's website i.e. www.djcorp.in. FOR & ON BEHALF OF BOARD OF DIRECTORS OF DJ MEDIAPRINT & LOGISTICS LIMITED

DATE: 11/11/2023

PLACE: MUMBAI

2. Diluted

DINESH KOTIAN MANAGING DIRECTOR

1.18

3.08

(Amount in Lakhs

HC ACE EXPORTS LIMITED

CIN: L19111UP1990PLC012053 # ISIN: INE781X01019 E-Mail id: aceexportsknp@gmail.com #Ph: +91 9453026677 www.aelknp.com Extract of Audited Financial Results for the guarter and Six months ended 30th September, 2023 [In terms of Regulation 47(1) (b) of the SEBI (LODR) Regulations, 2015]

Net Profit for the Period before Tax, Exceptional and Estraordinary learns Net Profit for the Period before Tax (after "Exceptional and Extraordinary items Net Profit for the Period after Tax (ofter Exceptional and Estraordinary Items) Total Coreprehensive Income for the period Comprising Profit for the Period (ofter nd other Comprehensive Income (After Yes) -53,998.00 53,909.0 53,928.00 53.928 D Paid-up equity share capital 53,998.00 53,928.00 Earnings per equity share for Continuing and Discontinuing. Operations Basic earnings per share

The above is an extract of the detailed format of audited Financial results for the Quarter and six months ended on 30th September, 2023, filed with the Stock Exchange under Regulation 33 of the SEBI (listing Obligations; and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the above Result are available on the Stock Exchange website (www.msei.in) and the Company's website (www.aelknp.com)

meeting held on 10th November 2023. The Statutory Auditors have carried out Limited Review of the audited Financial Results for the quarter ended 30th

Place : Dated: 10-11-2023

The above Audited Financial Results have been reviewed by the Audit Committee and thereafter approved and taken on record by the Board of Directors in their

For ACE EXPORTS LIMITED (R.S. ROOFI WAKI) **Managing Director** DIN: 00641653

Classifieds

PUBLIC NOTICE

his is to inform to the public at large that fient Dr. Umesh Bhatnagar (Senior Citize /o Sh. Chander Mohan resident of Flat No C, R-Block, Dilshad Garden, Delhi 10095 has already debarred and disconner nis daughter Smt. Sakshi Bhatnagar Mendiratta W/o Sh. Dharamveer Mendiratta and her husband Sh. Dharamyeer Mendiratta S/o Late Sh. Lok Nath Mendiratta rom their all moveable & immoveable properties and severed all their relation vith them due to their gross disobedient an quarrelsome nature. For the notice of eneral public it is reiterated that due to the bove detailed reasons my client Dr. Umes 3hatnagar (Senior Citizen) S/o Sh. Chande Mohan resident of Flat No. 3-C, R-Block Dilshad Garden, Delhi-110095 debarrer and disowned his daughter Smt. Saksh Bhatnagar Mendiratta W/o Sh. Dharamvee Mendiratta, her husband Sh. Dharamvee Mendiratta S/o Late Sh. Lok Nath Mendiratta and their son Yatharth Mehndiratta fro their all moveable & immoveable propertie and severed all their relations with them du o their gross disobedient and quarrelsom ature. Any one dealing with them shall be dealing at his/her own risk and my clients hall not be responsible and liable for their DINESH KUMAR (Advocate) Mobile: +91 98100 24248

PROPERTY FOR SALE

FOR SALE COMMERCIAL PROPERTIES IN CONNAUGHT PLACE DELHI 1200 / 640 / 480 / 750 Sq. Yrd. Rented / Vacant **Commercial Properties** ALSO DEAL IN: Delhi NCR, Mumbai & Goa **Handle Disputed Cases** Only Genuine Buyers Contact Bhalla IJS CONCEPT INDIA PROPERTY MANAGEMENT riet Office -14, Sec. 35-A, CHD **9316255513** 🛥 nriservices21@gmail.com

C lassifieds

Managing Director

CLASSIFIED AD DEPOT (CAD) Book classified ads at your nearest Express

Group's authorised Classified Ad Depots EAST PATPARGANJ: CHAVI ADVERTISERS, Ph.: 9899701024,

22090987, 22235837, PREET VIHAR: AD BRIDGE COMMU-

NICATION, Ph.: 9810029747, 42421234, 22017210,

SHAKARPUR: PARICHAY ADVERTISING & MARKETING. Ph.: 9350309890, 22519890, 22549890

WEST JANAKPURI: TRIMURTI ADVERTISERS, Ph.: 9810234206, 25530307. KAROL BAGH (REGHARPURA): K R ADVERTIS-ERS. Ph.: 9810316618. 9310316618. 41547697. KARAM-PURA: GMJ ADVERTISING & MARKETING PVT. LTD.. Ph.: 9310333777, 9211333777, 9810883377, **NEW MOTI** NAGAR: MITTAL ADVERTISING, Ph.: 25178183, 9810538183, 9555945923, MOTI NAGAR: UMA ADVER-TISERS, Ph.: 9312272149, 8800276797, RAMESH NAGAR: POSITIVE ADS, Ph.: 9891195327, 9310006777, 65418908. TILAK NAGAR: SHIVA ADVERTISERS, Ph.: 9891461543.

CENTRAL CHANDNI CHOWK: RAMNIWAS ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810145272, 23912577, 23928577, CONNAUGHT PLACE: HARI OM ADVERTISING COMPANY Ph.: 9811555181, 43751196

25980670, 20518836, VIKAS PURI: AAKAR ADVT. MEDIA

Ph.: 9810401352, 9015907873, 9268796133

NORTH TIS HAZARI COURT: SAI ADVERTISING, Ph.: 9811117748

KINGWAY CAMP : SHAGUN ADVERTISING. Ph.: 9818505505, 27458589, PATEL CHEST (OPP. MORRIS NAGAR POLICE STATION): MAHAN ADVERTISING & MAR-KETING, Ph.: 9350304609, 7042590693, PITAMPURA (PRASHANT VIHAR) : PAAVAN ADVERTISER Ph.: 9311564460, 9311288839, 47057929

SOUTH

CHATTARPUR: A & M MEDIA ADVERTISING, Ph.:

9811602901, 65181100, 26301008, **KALKAJI** : ADWIN ADVERTISING, Ph.: 9811111825, 41605556, 26462690, MALVIYA NAGAR: POOJA ADVERTISING & MARKETING SERVICE, Ph.: 9891081700, 24331091, 46568866, YUSUF SARAI: TANEJA ADVERTISEMENT & MARKETING Ph.: 9810843218, 26561814, 26510090

NCR FARIDABAD (NEELAM FLYOVER) : AID TIME (INDIA)

ADVERTISING, Ph.: 9811195834, 0129-2412798, 2434654, FARIDABAD (NIT, KALYAN SINGH CHOWK) : PULSE ADVERTISING, Ph.: 9818078183, 9811502088, 0129-4166498, FARIDABAD: SURAJ ADVERTISING & MARKET-ING, Ph.: 9810680954, 9953526681, GURGAON: SAMBOD-HI MEDIA PVT. LTD., Ph.: 0124-4065447, 9711277174 9910633399, GURGAON: AD MEDIA ADVERTISING & PR, Ph.: 9873804580, NOIDA (SEC. 29): RDX ADVERTISING, Ph.: 9899268321, 0120-4315917, NOIDA (SEC. 65): SRI SAI MEDIA, Ph.: 0120-4216117, NOIDA (SEC. 58): JAI LAKSHMI ADVERTISERS, Ph.: 9873807457, 9911911719 GHAZIABAD (HAPUR ROAD TIRAHA, NR GURUDWARA): TIRUPATI BALAJI ADVERTISING & MARKETING, Ph.: 9818373200, 8130640000, 0120-4561000

EDUCATION (IAS & PMT ACADEMIES) FRIENDS PUBLICITY SERVICE 23287653, 23276901, 9212008155

For CAD enquiries please contact :

ROHIT JOSHI 9818505947, **ABHINAV GUPTA** 9910035901 For booking classified ads, please contact 011-23702148, 0120-6651215. E-mail: delhi.classifieds@expressindia.com STRESSED ASSETS RECOVERY BRANCH (SARB-II) KAROL BAGH, NEW DELHI (BRANCH CODE 51521)

3rd & 4th Floor, State Bank House, 18/4 Arya Samaj Road, Karol Bagh, New Delhi-110 005 Tel.011-28752163 Fax. 28755674 Branch e-mail: sbi.51521@sbi.co.in

APPENDIX-IV-A" [See proviso to Rule 8(6)] SALE NOTICE FOR SALE OF IMMOVABLE PROPERTIES The Authorized officer of State Bank of India (Secured Creditor) has taken over possession (Symbolic/Physical) of the following property/ies U/s 13 (4) of the SARFAESI Act. Public at large and borrowers, mortgagors and guarantors in particular

are informed that e-Auction (under SARFAESI Act 2002) of the charged property/ies in the below mentioned cases for realization of Bank's dues will be held on "AS IS WHERE IS BASIS". "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" on 28.11.2023, for recovery of the amount mentioned below due to the secured creditor from the Borrowers, Guarantors and Mortgagors. The reserve price and earnest Money to be deposited, have been mentioned below.

Date/Time of visit to the property for inspection: 23.11.2023 from 11.00 AM to 03:00 PM (Interested bidder may deposit Pre-Bid EMD with MSTC before the close of e-Auction. Credit of Pre-bid EMD shall be given to the bidder only after receipt of payment in MSTC's Bank account and up-dation of such information in the e-auction website. This may take some time as per banking process and hence bidders, in their own interest, are advised to submit the pre-bid EMD amount well in advance to avoid any last minute problem.)

Date/time of E-auction on 28.11.2023 for 4 Hours from 11:00 am to 3:00 pm with unlimited extension of 10 minutes each. Outstanding dues for recovery of **Description of the property/ies** Name of the Borrowers/ Reserve Price Name of the which property/ies/is/are being sold & Name of Title deed Holder Guarantors

Borrower: M/S Pooja Auto Products, Guarantor/Mortgagor: Sri Brij Bhushan Aggarwal.	Rs.84,99,911.44 (Rupees Eight Four lacs Ninety nine Thousand Nine hundred eleven and paise forty four only) as on 25.01.2019	House No.154 (GF+2), Khasra No.542, Sabun Godam, Purani Gur mandi Maliyana, Baghpat Road, Meerut, measuring 191.18 sq.mtr in the name of Shri Bri Bhushan Aggarwal S/o late Shri Kishan Chand Aggarwal. (PROPERTY IS UNDER PHYSICAL POSSESSION)	Sh. D. S. Bisht (M-9971846693) Sh. Rajesh Kumar (M-9431384994)
Bhawani Singh	two thousand six hundred ninety eight only) as on 24.02.2019 plus interest with	Property owned by: Mr. Satveer Singh S/o Sh. Bhawani Singh-Property bearing House No. 276, Surya Nagar, Phase II, Sector -91, Faridabad -121013. The property measures in the carpet area of 154.00 Sq. yd. (i.e. 128.76 Sq. Mts.) (PROPERTY IS UNDER PHYSICAL POSSESSION)	Sh. D. S. Bisht (M-9971846693) Sh. Rajesh Kumar (M-9431384994)

Wallet in which EMD is to be remitted: Bidders own wallet Registered with M/s MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp by means of NEFT. EMD of Reserve price to be transferred by bidders by means of challan generated on his/her/ their bidder account maintained with M/s MSTC Ltd on its e-auction site https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.isp by means of NEFT from his/her/their Bank. For any assistance, please call MSTC HELPDESK Nos. 033-40602403, 033-40609118, 033-40645316 and/or Authorised Officer. TERMS AND CONDITIONS OF THE E-AUCTION ARE AS UNDER

1. e-Auction is being held on AS IS WHERE IS BASIS". "AS IS WHAT IS BASIS" and "WHATEVER THERE IS BASIS" and will be conducted "Online". The auction will be conducted through the Bank's approved service provider MSTC E-commerce at their web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp

2. To the best of knowledge and information of the Authorized Officer there is no encumbrance on the property/ies. However the intending bidder should make their own independent inquiries regarding the encumbrances, title of the property/ies put on auction and claims/rights/dues/affecting the property prior to submitting their bid. The e-Auction advertisement does not constitute and will not be deemed to constitute any commitment or any representation of the Bank. The property is being sold with all the existing and future encumbrances whether known or unknown to the Bank. The authorized Officer shall not be responsible in any way for any third party

successful bidder shall have to deposit 25% of the sale price, immediately on acceptance of bid price by the Authorized Officer and the balance of the sale price on or before 15th day of the sale. Default in deposit of amount by the successful bidder would entail forfeiture of the whole money already deposited and property shall be put to the re-auction and the defaulting bidder shall have no claim/right in respect of property/amount. 4. For detailed terms and conditions of the sale please refer to the link at the Bank's service provider web portal https://www.mstcecommerce.com/auctionhome/ibapi/index.jsp&atBank's portal https://www.sbi.co.in. Sd/- AUTHORIZED OFFICER, STATE BANK OF INDIA, SARB-II, KAROL BAGH, NEW DELHI (BRANCH CODE 51521) DATE: 07.11.2023. PLACE: NEW DELHI

contact Person EMD (10% of Reserve Price Bid Increment amount

claims/rights/duties. 3. The earnest money deposit of the successful bidder shall be retained toward part sale consideration and the EMD of the unsuccessful bidder shall be refunded. The earnest money deposit shall not bear any interest. The

New Delhi

कमजोर स्टील सेक्टर के बावजूब बाहेती रिसाईक्लिंग इंडस्ट्रीज लि. ने वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में किया अच्छा वित्तीय प्रदर्शन

बिजनेस रेमेडीज/जयपुर। गुजरात के अहमदाबाद एल्यूमिनियम आधारित रिसाईविलंग सेक्टर की प्रमुख कंपनी बाहेती रिसाईक्लिंग इंडस्ट्रीज लि. ने 30 सितम्बर,२०२३ को समाप्त वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही के वित्तीय परिणाम घोषित किए हैं।

विवरण

1. कुल राजस्व

3. अवधि के लिए कुल व्यापक आय

कर पश्चात की अवधि के

इक्विटी शेयर पूंजी (पेड-अप)

(फेसवेल्यू 10/- रूपये प्रति)

पुनर्मूल्यांकन आरक्षित निधि को

(जैसा कि पिछले वर्ष की बैलेंस शीट में दिखाया गया है)

प्रति शेयर आय - मूल/तनुकृत

(रुपए प्रति इक्विटी शेयर)

2. किर पश्चात की अवधि के

3. अवधि के लिए कुल

लिए शुद्ध लाभ/(हानि)।

1. कुल राजस्व

छोड़कर आरक्षित निधि

लिए शुद्ध लाभ/(हानि)।

यह करती है कंपनीः बाहेती रीसाइक्लिंग इंडस्टीज लिमिटेड सुपीरियर ग्रेड धातु, एल्युमीनियम मिश्र धातु और सिल्लियां के व्यवसाय में कार्यरत एक प्रतिष्ठित इकार्ड है । बाहेती रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा विभिन्न उद्योगों की उभरती वैश्विक आवश्यकताओं को प्रीमियम

बोहरा इंडस्ट्रीज लिमिटेड

CIN: L24117811996PLC012912

पंजीकृत कार्यालयः ३०१, आनंद प्लाजा, यूनिवर्सिटी रोड, उदयपुर, राजस्थान ३१३००१

30 सितम्बर ,2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के अन-अंकेक्षित वित्तीय परिणामों का ब्यौरा

142,971,520.00 102,971,520.00

30.09.2022

अन-अंकेक्षित

(56.37)

(0.55)समेकित

(56.37)

समाप्त तिमाही

30.06.2023

अन-अंकेक्षित

(61.85)

(0.43)

(61.85)

1. कंपनी को इन्सॅल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड, 2016 के तहत सीआईआरपी के माध्यम से राष्ट्रीय कंपनी कानून ट्रिब्यूनल (एनसीएलटी)

3. कंपनी केवल एक सेगमेंट के तहत काम करती है और इसलिए एस-17 (सेगमेंट रिपोर्टिंग) के तहत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती है। 4. 30 सितंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और छमाही के लिए उपरोक्त अनअंकेक्षित वितीय परिणामों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्ष

की गई और 9 नवंबर, 2023 को आयोजित उनकी बैठक में निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया।

30.09.2023

अन-अंकेक्षित

(55.85)

142,971,520.00

(0.39)

(55.85)

द्वारा अनुमोदित समाधान योजना के माध्यम से अधिग्रहित किया गया था।

2. आंकड़ों को आवश्यकतानुसार पुनःसमुहित या पुनर्वर्गीकृत किया गया है।

के साथ पूरा करने के लिए तैयार नवीन तकनीकों का उपयोग करके एक ही स्थान पर गुणवत्तापूर्ण मिश्रधातुओं का निर्माण किया जाता है। अधिकतम उपयोग गुणवत्ता मानक में निरंतर वृद्धि कर रही है।

कंपनी के वित्तीय परिणामः

(रुपये लाखों में प्रति शेयर के आंकडों को छोड़कर)

अन-अंकेक्षित

(135.15)

(1.31)

(135.15)

निदेशक मंडल के लिये और बोहरा इंडस्ट्री की ओर से

कष्णा अग्रवाल

2 mins

समाप्र छमाही

30.09.2023 30.09.2022

अन-अंकेक्षित

(117.70)

142,971,520.00

(0.82)

(117.70)

समाप्त वर्ष

31.03.2023

अं**केक्षि**त

(293.89)

(2.06)

(293.89)

वित्त वर्ष 2024 की पहली छमाही में कंपनी ने गत वित्त वर्ष के मुकाबले 28.67 फीसदी अधिक 206.79 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। इस छमाही में कंपनी ने 1.43 फीसदी के मार्जिन के साथ २.९५ करोड़ रूपए का कर पश्चात शुद्ध लाभ अर्जित किया है। इस छमाही में कंपनी ने 7.75 करोड़ रुपए

का ईबिटा हासिल किया है।

कंपनी की हालिया उपलब्धियों के बारे में बोलते हुए प्रबंधन ने कहा कि कंपनी कारोबारी विस्तार में बढ़त और योजनाओं के माध्यम से रणनीतिक विस्तार को लेकर आश्वस्त है। कंपनी वित्तीय नतीजों से रोमांचित हैं, जो **दृढ़ता,ग्राहकों का समर्थ**न और टीम के अथक समर्पण के कारण हासिल हुई है।

भावी योजनाः बाहेती रीसाइक्लिंग इंडस्ट्रीज लिमिटेड उत्पाढ़ों की विस्तृत श्रंखला प्रदान करने और बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद की अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि करती है। कंपनी ने ग्राहकों की कठोर आवश्यकताओं को पुरा करने के लिए सावधानीपूर्वक तैयार किए है। कंपनी आने वाले समय में भी इसी प्रकार के विशिष्ट उत्पाद निर्मित कर ग्राहकों को देने

सोमी कन्वेयर को मिले 46.61 करोड़ के आर्डर

बिजनेस रेमेडीज/नई दिल्ली। कन्वेयर बैल्ट के निर्माण में सम्पूर्ण भारतवर्ष व विश्व में सूर्यनगरी की पहचान बनाने वाली सोमी कन्वेयर बैल्टिंग्स लिमिटेड को हात



प्रबंध निदेशक, सोमी कन्वेयर बैल्टिंग्स लिमिटेड

ही में 46.61 करोड़ के आर्डर प्राप्त हुए। सोमी राजस्थान की बी. एस. सी. व एन. एस. सी. लिमिटेड एक मात्र ईकाई है जो कन्वेयर बैल्ट का निर्माण कर रही है। कम्पनी के प्रबंध निदेशक विमल भंसाली ने बताया कि पिछले दिनो कम्पनी को देश के पॉवर सेक्टर की मुख्यतः अग्रणी कम्पनी एन.टी.पी.सी. लिमिटेड की विभिन्न ईकाईयों से खड़ तथा स्टील कोर्ड की बैल्टो के 54000 मीटर के आर्डर मिले है। कम्पनी को वर्ष २०२० के दौरान राज्य सरकार के उद्योग विभाग ने सुक्ष्म लघु व मध्यम उद्योगो को तीव्र गति प्रदान करने के लिये उद्योग रत्न अवार्ड से नवाजा गया। कम्पनी की कुल रेवेन्यू



सितम्बर 2023 को समाप्त 6 माही में पिछले 6 माही की तुलना में 36 प्रतिशत बढोतरी हुई है वही कम्पनी के नेट प्रॉफिट में 85 प्रतिशत की बढोतरी हुई है। हाल ही में कम्पनी के शेयर ब्लिचप श्रेणी में वर्गीकृत हुए है। सोमी कन्वेयर ना केवल प्रगति की ओर अग्रसर है बल्कि अपने इन्वेस्टर्स को काफी अच्छा रिटर्न भी प्रदान कर रही है।

MEHAI TECHNOLOGY LIMITED

(CIN: L74110RJ2013PLC066946)

Reg. Office: B-40, Sudarshanpura Industrial Area, Jaipur - 302006.

Corporate Office: Unit No. 708, 7th Floor, ECO Centre, Block-EM-4 Sector-V, Salt Lake Kolkata 700091 WB IN Phone: 91-9836000343 E-mail: cs@mehai.co.in website: www.mehaitech.co.in Rs. (In Lakh)

EXTRACT OF UNAUDITED STANDALONE & CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE

QUARTER AND HALF YEAR ENDED SEPTEMBER 30, 2023													
PARTICULARS		STANDALONE						CONSOLIDATED					
	Quarter	Quarter	Quarter	Half Year	Half Year	Year Ended	Quarter	Quarter	Quarter	Half Year	Half Year	for the year	
	ended	ended	ended	ended	ended	On	ended	ended	ended	ended	ended	ended on	
	September 30,	June 30,	September 30,	September 30,	September 30,	March 31,	September 30,	June 30,	September 30,	September 30,	September 30,	March 31,	
	2023	2023	2022	2023	2022	2023	2023	2023	2022	2023	2022	2023	
	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Un-Audited	Audited	
1 Total Income from													
Operations (Net)	389.86	213.45	66.27	603.31	150.35	816.88	389.86	226.42	85.65	616.28	169.73	889.07	
2 Profit/(Loss) before													
Exceptional Items &													
Extraordinary items													
and tax	28.32	22.41	4.17	50.73	9.49	86.28	28.32	22.93	5.07	51.25	10.38	88.58	
3 Net Profit/(Loss) for the													
period before tax (after													
Exceptional and /or													
Extraordinery Items	28.32	22.41	4.17	50.73	9.49	86.28	28.32	22.93	5.07	51.25	1038	88.58	
4 Net Profit/(Loss) for													
from Ordinary Activities	l												
after tax	23.10	14.44	3.12	37.54	7.10	49.74	23.10	14.83	3.79	37.93	7.75	51.44	
5 Total Comprehensive													
income for the period	23.10	14.44	3.12	37.54	7.10	49.74	23.10	14.83	3.79	37.93	7.75	51.44	
6 Paid-up Equity Share													
Capital (Rs. 10/- per share													
& Consolidated													
(Rs. 10.02 Per Share)	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1,071.00	1071.00	1071.00	1071.00	1071.00	1071.00	1071.00	
7 Earnings per Share													
(a) Basic	0.22	0.13	0.03	0.35	0.07	0.46	0.22	0.14	0.04	0.35	0.07	0.48	
(b) Diluted	0.22	0.13	0.03	0.13	0.07	0.46	0.22	0.14	0.04	0.13	0.07	0.48	

Note: 1. The above is an extract of the detailed format of Financial Results filed with Stock Exchanges under Regulation 33 of SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full formal of the Financial Results is available on the Stock Exchanges Website (www,bseindia.com) and on Company's website (www.mehaitech.co.in).

2. The said Financial Results were reviewed by the Audit Committee and approved by the Board of Directors of the Company in its meeting held on 11.11.2023

For Mehai Technology Limited SD/-

स्थानः उदयपुर प्रबंध निदेशक के लिए कृत-संकल्पि है। Place: Kolkata दिनांकः 09.11.2023 DIN:09402238 Date: 11.11.2023 **Managing Director** 2 & 3 BHK Ultra Luxurious Smart Homes RERA NO. RAJ/P/2023/2668 | RERA Website: www.rera.rajasthan.gov.in शुभ दीपावली प्रताप नगर जयपुर में 2 внк घर मात्र 36.80 L* में **Location Highlights** Main Tonk Road **Coaching Hub** Chokhi Dhani Sitapura Jagatpura

FINANCE AVAILABLE FROM ALL LEADING BANKS

iving Room - Sample Fla

Site Office: Love Home Joypur, Opposite D Mart, Pratap Nagar, Tonk Road, Jaipur - 302033 (Rajasthan) | www.lovehome.in

(90571 90571

5 mins

7 mins

7 mins

SAMPLE FLAT READY

Bedroom - Sample Flat

5 mins